



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 आषाढ़ 1947 (श10)  
(सं० पटना 1176) पटना, मंगलवार, 1 जुलाई 2025

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

27 जून 2025

एस० ओ० 142, दिनांक-01.07.2025—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-5 की उपधारा (2) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के खण्ड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा(1) के खण्ड (बी) के अधीन तथा बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदात्री पर्वद से दिनांक-21.03.2025 की बैठक में परामर्श करने के पश्चात् बिहार राज्यपाल पर्यवेक्षीय/लिपिकीय कामगारों की मजदूरी को कुशल मजदूर के बराबर करने की घोषणा करते हैं।

यह 01 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगी।

एतद द्वारा प्रारूप अधिसूचना के गजट प्रकाशन के तिथि से दो माह के अवधि भी निर्धारित करते हैं जिस अवधि में इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्ति अपना आपत्ति एवं सुझाव समर्पित कर सकते हैं। यदि कोई आपत्ति अथवा सुझाव हो तो श्रमायुक्त, बिहार को अथवा [lcbihar@bihar.gov.in](mailto:lcbihar@bihar.gov.in) पर ई-मेल से भेजा जाएगा। किसी व्यक्ति द्वारा दिये गये आपत्ति अथवा सुझाव को उपर्युक्त अंकित अवधि के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा विचारित किया जाएगा।

(सं० 4/ M.W-40-14 / 2025 श्र०सं०-38)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राजीव रंजन,

संयुक्त सचिव।

*The 27<sup>th</sup> June 2025*

S.O. 143, Date-01.07.2025--In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section-3 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) read with sub-section (2) of section-5 of the said Act and under clause (b) of subsection (1) of section-5 of the said Act and after consultation with Bihar Minimum Wages

Advisory Board in its meeting held on 21.03.2025, the Governor of Bihar is pleased to make the wages of Supervisor/Clerical equal to that of skilled labourer.

This will be effective from 01 October 2025.

We hereby also fix a period of two months from the date of publication of the draft notification in the gazette during which all the persons affected by it can submit their objections and suggestions. If there is any objection or suggestion, it will be sent to the Labor Commissioner Bihar or by e-mail at [Icbihar@bihar.gov.in](mailto:Icbihar@bihar.gov.in). The objection or suggestion given by any person will be considered by the State Government after the above mentioned period.

(No. 4/M.W-40-14/2025 Sh.No.- 39)

By order of Bihar Governor,  
Rajeev Ranjan,  
Joint Secretary.

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।  
बिहार गजट (असाधारण) 1176-571+100-डी0टी0पी0 ।  
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>